

6. Discuss the statutory powers and duties of a company auditor under Indian Company Act. **15**

भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत एक कंपनी लेखा-परीक्षक की वैधानिक शक्तियों और कर्तव्यों पर चर्चा कीजिए ।

7. What is Auditor Report ? Explain type and subject-matter of audit report. **15**

ऑडिटर रिपोर्ट क्या है ? ऑडिट रिपोर्ट के प्रकार और विषय-वस्तु बताइए ।

8. What is Investigation ? How does it differ from auditing ? How will you investigate on behalf of a prospective lender ? **15**

जाँच क्या है ? यह ऑडिटिंग से कैसे अलग है ? आप एक संभावित ऋणदाता की ओर से कैसे जाँच करेंगे ?

9. What do you understand by verification and what are its objectives ? Distinguish between verification and valuation. **15**

सत्यापन से आप क्या समझते हैं और इसके उद्देश्य क्या हैं ? सत्यापन और मूल्यांकन के बीच अंतर बताइए ।

Subject Code—52453

B.Com. (General/Hons.) EXAMINATION

(Main/Reappear) (Batch 2017 & 2018)

(Fifth Semester)

AUDITING

BC505

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 80

Note : Attempt *Five* questions in all. Q. No. 1 is compulsory and is of 20 marks. Remaining all questions carry equal marks.

कुल पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए । प्रश्न क्र. 1 अनिवार्य है तथा 20 अंक का है । शेष सभी प्रश्नों के अंक समान हैं ।

1. Attempt all questions : **5×4=20**

(i) Elaborately define auditing.

(ii) Explain internal audit. What are the objects of internal check ?

- (iii) Write a short note on audit working papers.
- (iv) Explain *four* general rules of verification.
- (v) What do you mean by professional misconduct ?

सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

- (i) विस्तृत रूप से ऑडिटिंग को परिभाषित कीजिए ।
- (ii) आंतरिक ऑडिट बताइए । आंतरिक जाँच की वस्तुएँ क्या हैं ?
- (iii) ऑडिट वर्किंग पेपर्स पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए ।
- (iv) सत्यापन के चार सामान्य नियम बताइए ।
- (v) पेशेवर कदाचार से आपका क्या अभिप्राय है ?

2. Explain meaning, scope and necessity of auditing and how does it differ from accountancy ? 15

ऑडिटिंग का अर्थ, गुंजाइश और आवश्यकता बताइए और यह अकाउंटेंसी से कैसे भिन्न है ?

3. What is Test Checking ? What precautions should be taken in this ? Explain advantages and disadvantages. 15

परीक्षण जाँच क्या है ? इसमें क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए ? फायदे और नुकसान बताइए ।

4. What is Internal Audit ? Write its object and importance. What are the requisites of efficient internal audit department ? 15

आंतरिक लेखा-परीक्षा क्या है ? इसकी वस्तुओं और महत्त्व को लिखिए । कुशल आंतरिक लेखा-परीक्षा विभाग की आवश्यकताएँ क्या हैं ?

5. "Vouching is the essence of auditing." Explain. What are the special points to which an auditor must pay while vouching cash book and payments ? 15

“वाउचिंग ऑडिटिंग का सार है ।” के बारे में बताइए । वे विशेष बिंदु क्या हैं जिनके लिए एक लेखा-परीक्षक को नकद पुस्तक और भुगतानों की प्रतिज्ञा करते समय भुगतान करना होगा ?